



पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड POWER FINANCE CORPORATION LTD.

(भारत सरकार का उपक्रम)

(A Govt. of India Undertaking)

(आई.एस.ओ. 9001:2015 प्रमाणित)

(ISO 9001:2015 Certified)

7 नवंबर, 2025

प्रेस विज्ञप्ति तिमाही2/छमाही1'26 परिणाम –

➤ समेकित वित्तीय विशेषताएं

- छमाही1'25 में ₹14,397 करोड़ की तुलना में छमाही1'26 में समेकित कर पश्चात लाभ में 17% की वृद्धि दर्ज की गई, जो बढ़कर ₹16,816 करोड़ हो गया।
- 15% की वृद्धि के साथ समेकित नेटवर्थ (गैर-नियंत्रण ब्याज सहित) 30.09.2024 तक ₹1,45,158 करोड़ से बढ़कर 30.09.2025 तक ₹1,66,821 करोड़ हो गई।
- 10% की वृद्धि के साथ समेकित ऋण परिसंपत्ति बुक 30.09.2024 तक ₹10,39,472 करोड़ से बढ़कर 30.09.2025 तक ₹11,43,369 करोड़ हो गई।
- छमाही1'26 में समेकित निवल एनपीए 0.30% रहा, जबकि छमाही1'25 में यह 0.80% था। सकल एनपीए में भी 117 बीपीएस की उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई, जो छमाही1'25 के 2.62% से घटकर छमाही1'26 में 1.45% हो गया।

➤ एकल वित्तीय विशेषताएं

- छमाही1'26 में छमाही कर पश्चात लाभ (पीएटी) ₹8,963 करोड़ दर्ज किया गया, जबकि छमाही1'25 में यह ₹8,088 करोड़ था, जो मुख्य रूप से निवल ब्याज आय में 23% की मजबूत वृद्धि के कारण हुई।
- पीएफसी के बोर्ड ने ₹3.65 प्रति शेयर के अंतरिम लाभांश की घोषणा की, जिससे संचयी अंतरिम लाभांश बढ़कर ₹7.35 प्रति शेयर हो गया।
- 30.09.2024 तक ₹4,93,363 करोड़ से बढ़कर 30.09.2025 तक ₹5,61,209 करोड़ हो जाने के साथ ऋण परिसंपत्ति बुक में 14% की दोहरे अंकों की वृद्धि दर्ज की गई।
- नवीकरणीय ऊर्जा ऋण बुक में 32% की वृद्धि दर्ज की गई, जो 30.09.2024 तक ₹64,277 करोड़ से बढ़कर 30.09.2025 तक ₹84,679 करोड़ हो गई।
- पीएफसी लगातार तिमाही दर तिमाही सहज एवं मजबूत पूंजी पर्याप्तता स्तर बनाए हुए है। 30 सितंबर 2025 तक सीआरएआर 21.62% रहा, जिसमें टियर-1 पूंजी 19.89% थी, जो न्यूनतम विनियामक आवश्यकता से कहीं अधिक है।
- 30.09.2024 तक ₹85,924 करोड़ से बढ़कर 30.09.2025 तक ₹97,525 करोड़ हो जाने के साथ नेटवर्थ में 13.5% की वृद्धि हुई।
- छमाही1'26 के लिए निवल एनपीए अनुपात 0.37% रहा, जो पिछले 10 वर्षों का सबसे निम्न स्तर है।
- सकल एनपीए अनुपात में भी छमाही1'25 की तुलना में 84 बीपीएस की उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई और यह 2% से कम होकर 1.87% पर आ गया।

➤ प्रबंधन टिप्पणी

- पीएफसी के कार्य-निष्पादन पर टिप्पणी करते हुए, निदेशक (वित्त), श्री संदीप कुमार ने कहा कि हमने छमाही1'26 में ₹8,963 करोड़ का छमाही पीएटी दर्ज किया है, जो निवल ब्याज आय में 23% की प्रभावशाली वृद्धि से प्रेरित है। वैश्विक साझेदारियों को सुदृढ़ करने और वित्तपोषण स्रोतों में विविधता लाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए, पीएफसी ने दो महत्वपूर्ण करारों पर हस्ताक्षर किए—एक जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन (जेबीआईसी) के साथ और दूसरा एक्सपोर्ट फाइनेंस ऑस्ट्रेलिया (ईएफए) के साथ, जो भारत में ईएफए की पहली वित्तपोषण पहल है। मजबूत परिसंपत्ति गुणवत्ता और सहज पूंजी स्तरों के साथ, पीएफसी व्यावसायिक



पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड POWER FINANCE CORPORATION LTD.

(भारत सरकार का उपक्रम)

(A Govt. of India Undertaking)

(आई.एस.ओ. 9001:2015 प्रमाणित)

(ISO 9001:2015 Certified)

- अवसरों का लाभ उठाने के लिए पूरी तरह सक्षम है और तिमाही दर तिमाही स्थिर कार्य-निष्पादन जारी रखे हुए है।
- पीएफसी के कार्य-निष्पादन पर टिप्पणी करते हुए, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, सुश्री परमिंदर चोपड़ा ने कहा कि मजबूत परिचालन और वित्तीय कार्य-निष्पादन के चलते पीएफसी ने एक और रिकॉर्ड तिमाही दर्ज की है। पीएफसी ने 14% की दोहरे अंकों वाली ऋण परिसंपत्ति वृद्धि हासिल की, जिसे अब तक के सर्वाधिक छमाही संवितरण ₹86,000 करोड़ का समर्थन मिला। पीएफसी नवीकरणीय ऊर्जा पोर्टफोलियो पर अपना फोकस बनाए हुए है और वर्ष-दर-वर्ष 32% की प्रभावशाली वृद्धि दर्ज की है, जो भारत की ऊर्जा परिवर्तन यात्रा में एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में हमारी भूमिका को और सुदृढ़ करता है। शेयरधारकों को निरंतर मूल्य प्रदान करने की हमारी प्रतिबद्धता के अनुरूप, बोर्ड ने इस तिमाही के लिए ₹3.65 प्रति शेयर के अंतरिम लाभांश की घोषणा की है। ईएसजी प्रकटीकरण को और मजबूत करने के अपने प्रयासों के तहत, पीएफसी ने जीआरआई मानकों के अनुरूप अपनी दूसरी ईएसजी रिपोर्ट भी जारी की है। मजबूत बुनियादी कारकों के साथ, हमें अपने विकास की गति बनाए रखने और सभी हितधारकों के लिए मूल्य सृजन को और बढ़ाने का पूरा विश्वास है।

ह/-
(एस.एस. राव)
मुख्य महाप्रबंधक (पीआर)